



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 17, 2008/पौष 27, 1929

No. 73]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 2008/PAUSA 27, 1929

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2008

का.आ. 105(अ).—दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना) नियमावली, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने एवं प्रकाशित करने की सूचना।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :-

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के योजना जोन 'बी' (अर्थात् करोल बाग एवं शहरी विस्तार) में पड़ने वाले लगभग 2304 हेक्टे. क्षेत्रफल की क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

(ख) इसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए आगे पैरा 3 में उल्लिखित तिथि तक सभी कार्य-दिवसों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली और डी-ब्लॉक, विकास सदन, आई एन ए स्थित स्वागत कार्यालयों तथा एम पी पी आर कार्यालय, दि.वि.प्रा., डी-6, वसन्त कुंज, फ्लाई ओवर के पास, नई दिल्ली-110070 में उपलब्ध रहेगी।

2. इस प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में एतद्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति या सुझाव प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-23 को लिखित रूप में दिनांक 16 फरवरी, 2008 से पहले भेज सकते हैं।

आपत्ति करने या सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

[सं. एफ-4(3)/2007/एम.पी./पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

182 GI/2008

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th January, 2008

S.O. 105(E).—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

(a) A draft Zonal Development Plan covering an approximate area of 2304 ha. falling in Planning Zone B (i.e. Karol Bagh and City Extension) of the National Capital Territory of Delhi has been prepared;

(b) A copy thereof will be available for inspection at the Reception offices of the Delhi Development Authority at Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi and D-Block, Vikas Sadan, INA and in the office of MPPR, DDA, D-6, Vasant Kunj, Near Flyover, New Delhi-110070 on all working days between 11.00 a.m. and 5.00 p.m. till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft Zonal Development Plan.

3. The objections and suggestions may be sent in writing to the Pr. Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, B Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 before the 16th day of February, 2008.

Any person making the objection/suggestion should also give his/her name and address, Telephone/Fax.

[No. F-4(3)/2007/MP/Pt.]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.